



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 260]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 23, 1980/आषाढ़ 2, 1902

No 260]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 23, 1980/ASADHA 2, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
(बैंकिंग प्रभाग)
अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 21 जून, 1980

का.आ. 452(अ).—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, बैंक आफ इंडिया के अनुरोध पर 23 जून, 1980 से उड़ीसा राज्य में वैतरणी ग्राम्य बैंक नाम से एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना करती है जो कि उड़ीसा राज्य के मयूरभंज और वयोभर जिले की स्थानीय सीमाओं में कार्य करेगा।

[संख्या एफ. 1-14/80-आर.आर.बी. (1)]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 21st June, 1980

S.O. 452(E)—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act,

1976 (21 of 1976), the Central Government, being requested so to do by Bank of India, establishes, with effect from the 23rd June, 1980 a Regional Rural Bank in the State of Orissa under the name of Baitarani Gramya Bank, which shall operate within the local limits of the districts of Mayurbhanj and Kconjhar in the State of Orissa.

[No. F. 1-14/80-RRB (I)]

का. आ. 453 (अ).—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक तथा वैतरणी ग्राम्य बैंक के प्रायोजक बैंक आफ इंडिया से परामर्श करके मयूरभंज जिले के बारीपाड़ा को उस स्थान के रूप में निर्धारित करती है, जहां पर वैतरणी ग्राम्य बैंक का मुख्य कार्यालय होगा।

[संख्या एफ. 1-14/80-आर.आर.बी. (2)]

S.O. 453(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India and Bank of India, by which Baitarani Gramya Bank has been sponsored, specifies Baripada in the district of Mayurbhanj as the place where Baitarani Gramya Bank shall have its head office.

[No. F. 1-14/80-RRB(II)]

का.आ. 454(अ).—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खंड (क) के उपखण्ड (3) के अन्वय में, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त उपखंड के प्रयोजनों के लिए, बैतरणी ग्राम्य बैंक, बारीपाड़ा को प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत स्थापित एक संस्था के रूप में अधिसूचित करती है।

[संख्या एफ. 1-14/80-आर.आर.बी. (3)]

बलदेव सिंह, संयुक्त सचिव

S.O. 454(E).—In pursuance of sub-section (iii) of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby notifies, for the purposes of the said sub-clause, Baitarani Gramya Bank, Baripada being an institution established under sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976).

[No. F. 1-14/80-RRB (III)]

BALDEV SINGH, Jt. Secy.

**भारतीय रिजर्व बैंक
(ग्रामीण आयोजन और ऋण)**

अधिसूचना

बम्बई, 23 जून, 1980

का.आ. 455(अ).—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खंड (क) के अन्वय में, भारतीय रिजर्व बैंक एतद्वारा निवेश देता है कि उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित बैंक को समाविष्ट किया जाये, अर्थात्—

“बैतरणी ग्राम्य बैंक, बारीपाड़ा (उड़ीसा)।”

[आर.पी.सी.सी. संख्या 191/आई.एन.सी.एल./311-80]

एम.वी. हाटे, कार्यपालक निदेशक

**RESERVE BANK OF INDIA
(Rural Planning and Credit Cell)**

NOTIFICATION

Bombay, the 23rd June, 1980

S.O. 455(E).—In pursuance of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) the Reserve Bank of India hereby directs the inclusion in the Second Schedule to the said Act of the following bank, namely :—

“Baitarani Gramya Bank, Baripada (Orissa).”

[RPCC. No. 191/INCL/311-80]

M. V. HATE, Executive Director